

**Proceedings & Papers of National Seminar on Jainology (Folder No. :
014012)**

Main Title

Foreword

सम्पादकीय

स्वागत अभिभाषण

Inaugural Address of Padmashri K. N. Prasad

अध्यक्षीय अभिभाषण

धन्यवाद अभिभाषण

विषयक्रम

जैन विचारों की आधुनिक प्रासंगिकता -----	3
खण्ड-१ – जैन इतिहास एवं पुरातत्त्व	
Jainism in Bihar During Gupta Pala Periods -----	19
Some Observations on Navagrah Cult in Jain Art -----	23
Trade in the Samaraicakaha – Text & Context-----	29
जैन पुरातत्त्व में सन्दर्भित विदेह और मिथिला-----	३९
जैनधर्म एवं छोटानागपुर-----	४५
जैनधर्म के तीर्थकर, आचार्य और वाङ्मय -----	५३
मूर्त अंकनों में जिनेतर शलाकापुरुषों के जीवनदृश्य -----	५८
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित में वर्णित तीर्थकर -----	७२
श्रीलंका में जैनधर्म-----	८५
खण्ड-२ – प्राकृत-साहित्य भाषा एवं साहित्य	
जटासिंहनन्दी का वरांगचरित और उसकी परम्परा -----	९१
वसुदेवहिण्डी की खण्ड-कथाएँ-----	१०६
महावीर और बुद्ध के जीवन और उनकी चिन्तन-दृष्टि-----	११२
प्राकृत-अपभ्रंश छन्द-परम्परा और विकास -----	१३४
आध्यात्मिक रूपक-काव्य और हिन्दी के जैन कवि -----	१४९
खण्ड-३ – जैनधर्म एवं दर्शन	
Pali Sakkaya & Prakrit Atthikaya – A Comparative Study -----	159
जैन दर्शन का वैशिष्ट्य -----	१६३
गुणस्थान-सिद्धान्त का उद्भव एवं विकास -----	१६९
अनेकान्त और अहिंसा-एक शास्त्रीय परिशीलन -----	१८६
जैनधर्म के पंच महाव्रत-आज के सन्दर्भ में-----	२०७
जैनाचार-एक मूल्यांकन -----	२११
जैन एवं हिन्दू धर्म में परमतत्त्व की अवधारणा-----	२१८
उत्तराध्ययन सूत्र में वर्णित संन्यास-धर्म -----	२३०
महावीर का पंचसूत्री महाव्रत और ब-हदारण्यक के तीन द-----	२३६

